

नालको NALCO

एनबीसी/एस/4.5 एवं 4.5(ए)/2023/307
दिनांक: 10.02.2023

NBC/S/4.5 & 4.5(A)/2023/307
Date: 10.02.2023

To, प्रबंधक/The Manager बीएसई लिमिटेड/BSE Limited, फीरोज जीजीभोय टावर्स/ Phiroj Jeejeebhoy Towers, दलाल स्ट्रीट/Dalal Street, मुम्बई/MUMBAI- 400 001 स्क्रिप कोड/Scrp Code: 532234	To, प्रबंधक/The Manager अनुसूचन विभाग/Listing Department नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि., National Stock Exchange of India Ltd., एक्सचेंज प्लाजा, बांद्रा-कुर्ला कम्प्लेक्स, Exchange Plaza, Bandra-Kurla Complex, बांद्रा ईस्ट/Bandra East, मुम्बई/MUMBAI-400 051 प्रतीक/Symbol: NATIONALUM
--	---

Sub: NALCO profit up 61% sequentially in Q3. Net Profit for Q3 Pegged at Rs.274 crore.

Dear Sir,

In terms of Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, enclosed please find a press release on “NALCO profit up 61% sequentially in Q3. Net Profit for Q3 Pegged at Rs.274 crore”.

The aforesaid information is also disclosed on the website of the company at www.nalcoindia.com.

You are requested to please take a note and disseminate the same in your Exchange.

धन्यवाद/Thanking you,

भवदीय /Yours faithfully,
कृते नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड
for National Aluminium Co. Ltd.

(एन.के. महान्ति)

(N.K. Mohanty)

समूह महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी
GGM & Company Secretary and Compliance Officer

Encl.: As above/संलग्न

नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
निगम कार्यालय
नालको भवन, नयापल्ली, भुवनेश्वर -751 013 भारत

National Aluminium Company Limited
(A Government of India Enterprise)
REGD. & CORPORATE OFFICE
Nalco Bhawan, Nayapalli, Bhubaneswar-751013,India

CIN # L27203OR1981GOI000920

Tel.:0674-2301988-999, Ext.:2265, 2266, 2267, 2585, 2587, E-mail:company_secretary@nalcoindia.co.in,Website:www.nalcoindia.com

Press Release

NALCO profit up 61% sequentially in Q3 Net Profit for Q3 Pegged at Rs.274 crore

Bhubaneswar, 10.02.2023: National Aluminium Company Limited (NALCO), the Navratna CPSE, under Ministry of Mines, Govt. of India and country's leading manufacturer and exporter of alumina and aluminium, has declared its financial results for the 3rd quarter ended December 2022.

According to the reviewed financial results for the 3rd quarter of the FY 23, taken on record by the Board in the meeting held at Bhubaneswar today, NALCO has achieved net profit of Rs.274 crore, as against Rs.170 crore in the preceding quarter of this fiscal. The net sales turnover in the 3rd Quarter was Rs.3290 crore. Lower sales volume of alumina during the quarter, higher input costs coupled with global challenging business scenario and volatility has affected the profit margins despite the fact that the company has registered robust growth in production in all fronts.

Operational efficiency and team work of NALCO had played a key role in overcoming the slump period. With firming up of aluminium prices globally and higher productions volumes, we are sure that it will certainly add to the profit margins in the coming quarters. We are also hopeful, that the Q4 results will contribute significantly for the overall FY 23 results, said Shri Sridhar Patra, CMD, NALCO.

नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

निगम कार्यालय

पी/1, नयापल्ली, भुवनेश्वर-751013, ओडिशा, भारत

फोन Phone: 91-674-2301988-99, फेक्स Fax: 91-674-2301290

CIN: L27203OR1981GOI000920

National Aluminium Company Limited

(A Government of India Enterprise)

Corporate Office

P/1, Nayapalli, Bhubaneswar-751013, Odisha, INDIA

Website : <http://www.nalcoindia.com>